

1-नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2022 को वादी निवासी थाना भगतपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0 123/2022 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई, बरामदगी/बयान पीडिता, मेडिकल परीक्षण के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 376सी भादवि, 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.06.2022 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना भगतपुर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गोकुल नगर श्यामपुर थाना भगतपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

2-घर में घुसकर दुष्कर्म करने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2022 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करने, वादिनी के पति के आने पर पति के साथ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 254/2022 धारा 452/376/323/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.06.2022 को निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना ठाकुरद्वारा, द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त विनीत पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरकडा करीम थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3-ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने के प्रकाश में आये 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2022 को वादी राशद पुत्र मुन्ने निवासी मोहल्ला अंसारी आन कस्बा व थाना बिलारी, मुरादाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 218/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.06.2022 को उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना बिलारी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-अरशद उर्फ छंगा पुत्र अनीश निवासी मोहल्ला अंसारीयान कस्बा व थाना बिलारी, मुरादाबाद 2-मौ0 समीर उर्फ भूरा पुत्र आशिक हुसैन मोहल्ला अंसारीयान कस्बा व थाना बिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी गये 02 बैट्री एवं 02 अवैध चाकू बरामद किये गये। बैट्री की बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी, अभियुक्तगण के पास अवैध चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 220/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

4-गाली-गलौज एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के 03 महिला अभियुक्त गिरफ्तार थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2022 को अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज करते हुये सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0 419/2022 धारा 147/353/504 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 01.06.2022 को उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सिविल लाईन्स द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से 03 महिला अभियुक्त 1-सना पुत्री इशतायक 2-नाजिया पुत्री स्व0 इस्त्याक 3-समरीन पत्नी नब्बू उर्फ इरफान निवासीगण चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

5-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना भोजपुर:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान *‘‘आपरेसन पाताल’’* के तहत आज दिनांक 01.06.2022 को उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना भोजपुर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र पप्पू निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 177/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।